



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रस्तावार्ण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 1972/चत्र 9, 1894

No. 171] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 1972/CHAITRA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March 1972

S.O. 238(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961 following is published for general information :—

FORM 7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the Elected Members of the Maharashtra Legislative Assembly

Serial Number	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Kumbhare, Narayanrao Haribhau .	Kamptee, Dist. Nagpur.
2.	Khobragade, Bhaurao Dewaji .	Gandhi Road, Chandrapur.
3.	Desai, Sushila Mansukhlal .	M. H. No. 73, Industrial Assurance Building, Veer Natiman Road, Bombay.
4.	Pawar, Dattayashilrao Yashwant .	House No. 1319, Old Agra Road, Surgana House, Nasik.
5.	Patil, Galabrao Raghunath .	H. No. 637, Ward No. 32, Sangli.

1	2	3
6.	Parashar, Vinaykumar Ramlal . . .	House No. 316, Ward No. 42, Akola, Dist. Akola.
7.	Vyas, Mukund Labhshankar . . .	M. H. No. 18, Lansdowne House, Lansdowne Road, Bombay.
8.	Sikandar Ali Wajid Abdul Gafoor . . .	Kotwalpura, Panchakki Road, Aurangabad.

Place: Council Hall, Bombay-1.

Date: 24th March, 1972.

(Sd/-) G. G. KUDALKAR,
Returning Officer.

[No. 318/MT/72]

By Order,

A. N. SEN, Secy-

भारत निर्वाचन आयोग।

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च 1972

क्र० अ० 2 8 (अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व-साधारण की सूचनार्थ किया जाता है :—

प्रारूप 7ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

महाराष्ट्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	कुम्भारे, नारायणराव हरिभाऊ	कम्पटी, जिला नागपुर।
2.	खोबरगाडे, भाऊराव वेवाजी	गांधी रोड, चन्द्रपुर।
3.	देसाई, सुशीला मनसुखलाल	म्यु० म० सं० 73, इंडस्ट्रीयल एक्स्पोरेंस बिल्डिंग, वीर नारीमान रोड, बम्बई।
4.	पावर, धैर्यशीलराव यशवंत	म० सं० 1349, ओल्ड आगरा रोड, सरगना हाउस, नासिक।
5.	पाटिल, गुलाबराव रघुनाथ	म० सं० 637, वार्ड सं० 32, सांगली।

1	2	3
6. पाराशर, विनय कुमार रामलाल	म० सं० 316, वार्ड सं० 42, अकोला, जिला अकोला ।	
7. व्यास, मुकुन्द लाभशंकर	म्यु० म० सं० 18, सेंसडोन हाउस, सेंसडोन रोड, बम्बई ।	
8. सिकन्दर अली वाज्द अब्दुल गफूर	कोतवालपुरा, पनचक्की रोड, औरंगाबाद ।	

स्थान : कौंसिल हाल, बम्बई-1
 तारीख 24 मार्च, 1972

(ह०) जी० जी० कुदालकर,
 रिटनिंग प्राफिसर ।

[सं० 318/महा०/72]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

